



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो के प्रमुख

14 जनवरी, 2021

ICSI ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2020 में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की

- लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉ. साइरस एस. पूनावाला को दिया गया
- आईसीएसआई की मानद डिग्री, श्री कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान की गई



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

Live Webinar on "ICSI National Awards for Excellence in
Corporate Governance, 2020"

Wednesday, 13th January, 2021 at 04:30 PM (IST)



इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2020 में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया। यह अवार्ड्स भारतीय कंपनियों में गवर्नेंस को और अधिक व्यापक बनाने एवं इसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्षेत्र में कॉर्पोरेट्स और प्रोफेशनल्स के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।

माननीय केन्द्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे। अवार्ड जूरी की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सिकरी ने की।

इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा की आईसीएसआई का मोटो "सत्यम वदं - धर्मम चर" संस्थान और इसके सदस्यों द्वारा सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के काम को दर्शाता है और यह देश के अपने कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को दर्शाता है। ICSI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा हर पुरस्कार, विजेताओं को और अधिक बेहतर करने और ICSI द्वारा निर्धारित उच्च मानकों बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने आगे कहा, "हम सभी एक साथ, उद्योग, निजी क्षेत्र, आईसीएसआई जैसी संस्थाओं, उद्योग निकायों और सरकार के पारिस्थितिक तंत्र हमारे देश के भविष्य में समान हितधारक हैं। ICSI के सदस्य हर छोटे बड़े शहर में हैं, ये समाज में परिवर्तन लाने का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। यदि युवा सदस्यों को जोड़कर देश भर में कार्य करें, तो समाज में एक बहुत बड़ा योगदान यह संस्थान कर सकता है।

कार्यक्रम के दौरान आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिड़ला को ICSI की मानद डिग्री से सम्मानित किया। श्री बिरला ने अपने स्वीकृति भाषण में कहा, "आईसीएसआई के रूप में इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थान की मानद उपाधि प्राप्त करना और माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल से इसे प्राप्त करने वाला पहला उद्योगपति होना एक विशेष सम्मान है। सीएस समुदाय महामारी के समय में भी पूरे देश में गवर्नेंस की संस्कृति को बनाये रखने में मदद कर रहा है। कंपनी सेक्रेटरी देश के हीरोज हैं और मुझे उनका हिस्सा बनने पर गर्व है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता को वास्तविक करने के लिए ICSI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन डॉ साइरस एस पूनावाला को प्रदान किया गया।

सूचीबद्ध और असूचीबद्ध श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित बड़े मीडियम और इमर्जिंग कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 20 वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, निम्नलिखित कंपनियों को दिया गया:

- 1) ITC Limited (Listed Company: Large Category)
- 2) TATA Metaliks Limited (Listed Company: Medium Category)
- 3) Vaibhav Global Limited (Listed Company: Emerging Category)
- 4) Numaligarh Refinery Limited (Unlisted Company: Large Category)
- 5) Talwandi Sabo Power Limited (Unlisted Company: Medium Category)
- 6) Arohan Financial Services Limited (Unlisted Company: Emerging Category)

अपने व्यावसायिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करने में व्यावसायिक घरानों की प्रतिबद्धता को देखते हुए संस्थान ने 5 वां आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार निम्नलिखित कंपनियों को दिया गया:

- 1) Reliance Industries Limited (Large Category)
- 2) Natco Pharma Limited (Medium Category)
- 3) Minda Industries Limited (Emerging Category)

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट के महत्व को बताने के उद्देश्य से, ICSI ने पिछले साल बेस्ट सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट अवार्ड की स्थापना की थी। इस साल महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के लिए सीएस मकरंद जोशी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा अपनी स्थापना के बाद से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार कॉर्पोरेट और पेशेवरों की नैतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक जिम्मेदारी का मूल्यांकन करता रहा है। नियामक अधिकारियों के एक विस्तारित शाखा के रूप में, देश में एक मजबूत प्रशासन ढांचा तैयार करने में ICSI की भूमिका अब और अधिक गहन हो गई है।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले